



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 194] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1977, ज्येष्ठ 28, 1899

No. 194] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1977/JYAISTHA 28, 1899

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

---

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 281(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend Central Excise Rules, 1944, namely —

- 1 These rules may be called Central Excise (14th Amendment) Rules, 1977.
- 2 In clause (a) of sub-rule (2) of rule 173RC after the words "including the month or months in which such excess occurs" the words "whichever is more" shall be inserted

[No 193/77-C.E.]

KRISHNA KANT, Under Secy.

## राजस्व तथा बेकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

विधिपूर्वक

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 281 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( 14वां संशोधन ) नियम, 1977 है ।
2. नियम 173 दग के उपनियम (2) के खण्ड (क) में "उक्त आधिक होता है" शब्दों के स्थान पर "उक्त आधिक्य होता है, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 193/77—के० उ० शु०]

कृष्णा कांत, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977